



## स मा चा र

### राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 मध्य प्रदेश से तीन स्थानों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2022

मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त होने वाले तीन स्थानों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन तीन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आयोग द्वारा इस निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर सचिव श्री बी डी सिंह को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक -02 (एम-02) को मतदान स्थल हेतु अधिकृत किया गया है। तदाशय की अधिसूचना आज रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश से रिक्त होने वाली राज्यसभा की तीन सीटों के लिए निर्वाचन होना है। राज्यसभा सदस्य श्री विवेक कृष्ण तन्खा, श्रीमती संपतिया उइके एवं श्री एम जे अकबर का कार्यकाल 29 जून, 2022 को समाप्त हो रहा है।

राज्यसभा की उक्त तीन सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया 24 मई, 2022 से आरंभ होकर दिनांक 13 जून, 2022 तक चलेगी। इस अवधि में दिनांक 24 से 31 मई, 2022 में प्रतिदिन (लोक अवकाश के दिन को छोड़कर) पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक नामांकन पत्र मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा निर्वाचन, 2022 समिति कक्ष क्रमांक -2 में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच दिनांक 1 जून, 2022 अपराह्न 2:00 बजे से की जाएगी। नाम वापसी के लिए दिनांक 3 जून, 2022 को अपराह्न 3:00 बजे तक का समय निर्धारित है। आवश्यक हुआ तो मतदान 10 जून, 2022 को प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक होगा तत्पश्चात मतगणना संपन्न होगी।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)  
अवर सचिव